

अनुक्रमांक

नाम _____

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 15

131

324(YX)

2020

गणित

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 100

निर्देश : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Instruction : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

नोट : (i) इस प्रश्नपत्र में कुल नौ प्रश्न हैं।

(ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(iii) प्रत्येक प्रश्न के प्रारम्भ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खण्ड हल करने हैं।

(iv) प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

(v) प्रथम प्रश्न से आरम्भ कीजिए और अंत तक करते जाइए।

(vi) जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय नष्ट मत कीजिए।

324(YX)

11

(Y-1)

P.T.O.

- Note : (i) There are total _____ parts in this question paper.
(ii) All questions are compulsory.
(iii) In the beginning of each question, the number of parts to be attempted are clearly mentioned.
(iv) Marks allotted to the questions are indicated against the question.
(v) Start solving from the first question and proceed to solve till the last one.
(vi) Do not waste your time over a question you cannot solve.

1. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

(क) $f(x) = x^3$ द्वारा परिभाषित फलन $f : R \rightarrow R$

1

(i) एकेकी लेकिन आच्छादक नहीं

(ii) एकेकी तथा आच्छादक

(iii) बहुएक परन्तु आच्छादक नहीं

(iv) बहुएक तथा आच्छादक

(ख) पूर्णांकों के समुच्चय Z पर सम्बन्ध R जो $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \leq 1$ द्वारा दिया गया है। तब R

1

(i) स्वतुल्य तथा संक्रामक

(ii) स्वतुल्य तथा सममित

(iii) सममित तथा संक्रामक

(iv) एक तुल्यता सम्बन्ध

(ग) $\int x \sec(x^2) dx$ का मान है

1

- (i) $\frac{x^2}{2} \log(\sec x^2 + \tan x^2) + C$
- (ii) $2 \log(\sec x^2 + \tan x^2) + C$
- (iii) $\frac{1}{2} \log(\sec x^2 + \tan x^2) + C$
- (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

(घ) अवकल समीकरण

$$x \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) + \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 + y^2 = 0$$
 की धारा है

- (i) 1
- (ii) 2
- (iii) 3
- (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं

(ङ) यदि बिन्दु A (m, -1), B (2, 1) तथा C (4, 5) सरेखीय हो तो m का मान होगा

1

- (i) 2
- (ii) 1
- (iii) 0
- (iv) 3

1. Attempt all the parts of the following :

(a) If the function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$f(x) = x^3$$
 is :

- (i) one-one but not onto
- (ii) one-one onto
- (iii) many-one but not onto
- (iv) many-one onto

(b) R is a relation on the set Z of integers and is given by

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \leq 1 \text{ then } R \text{ is}$$

- (i) reflexive and transitive
- (ii) reflexive and symmetric
- (iii) symmetric and transitive
- (iv) an equivalence relation

(c) $\int x \sec(x^2) dx$ is equal to

- (i) $\frac{x^2}{2} \log(\sec x^2 + \tan x^2) + C$
- (ii) $2 \log(\sec x^2 + \tan x^2) + C$
- (iii) $\frac{1}{2} \log(\sec x^2 + \tan x^2) + C$
- (iv) none of these

(d) The degree of differential equation

$$x \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) + \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 + y^2 = 0 \text{ is}$$

- (i) 1
- (ii) 2
- (iii) 3
- (iv) None of these

(e) If the points A ($m, -1$), B (2, 1), C (4, 5) are collinear then value of m is

- (i) 2 (ii) 1
- (iii) 0 (iv) 3

1

1

2. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :

(क) $\operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{-2}{\sqrt{3}} \right)$ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए।

1

(छ) अगर फलन

$$f(x) = \frac{\sin(10x)}{x}, x \neq 0, x = 0 \text{ पर सतत है तो}$$

$f(0)$ का मान ज्ञात कीजिए।

1

(ग) अवकल समीकरण

$\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$ का समाकलन गुणक (I.F.) है ।

- (i) $\sin x$
- (ii) $\sec x$
- (iii) $\tan x$
- (iv) $\cos x$

(घ) असमिका $3x - 5 \leq 5x - 3$ जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, को हल कीजिए।

1

(ङ) A तथा B दो घटनाएँ हैं कि $P(A/B) = P(B/A) \neq 0$ तब निम्न से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए :

1

- (i) $A \subset B$
- (ii) $A = B$
- (iii) $A \cap B = \emptyset$
- (iv) $P(A) = P(B)$

2. Attempt all the parts of the following :

(a) Find principal value of $\operatorname{cosec}^{-1} \left(\frac{-2}{\sqrt{3}} \right)$

1

(b) If the function

$$f(x) = \frac{\sin(10x)}{x}, x \neq 0 \text{ is continuous at}$$

$x = 0$, find $f(0)$.

1

- (c) Integrating factor of the differential equation $\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$ is
 (i) $\sin x$
 (ii) $\sec x$
 (iii) $\tan x$
 (iv) $\cos x$
- (d) Solve the inequality
 $3x - 5 \leq 5x - 3$ where x is a real number
- (e) A and B are two events such that $P(A/B) = P(B/A) \neq 0$. Write the correct option from the following
 (i) $A \subset B$
 (ii) $A = B$
 (iii) $A \cap B = \emptyset$
 (iv) $P(A) = P(B)$
3. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :
- (क) यदि $f(x) = e^x$, $g(x) = \log e^x$ तो fog तथा gof ज्ञात कीजिए।
 (ख) अगर $y = (x-1) \log(x-1) - (x+1) \log(x+1)$ तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{dy}{dx} = \log\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

- (ग) दर्शाइए कि बिन्दु $2\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{j}$, $-\hat{i} + 4\hat{j}$ एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं।
- (घ) A किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, B उसे 4 प्रयास में से 3 बार तथा C उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेद सकता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
3. Attempt all the parts of the following :
- (a) Find fog and gof if $f(x) = e^x$, $g(x) = \log e^x$
- (b) If $y = (x-1) \log(x-1) - (x+1) \log(x+1)$ then prove that $\frac{dy}{dx} = \log\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$
- (c) Show that points $2\hat{i} - \hat{j} - 4\hat{j}$, $-\hat{i} + 4\hat{j}$ form an isosceles triangle.
- (d) A can hit a target 4 times in 5 shots ; B 3 times in 4 shots ; and C 2 times in 3 shots. Find the probability that target will be hit.
4. निम्नलिखित सभी खण्डों को हल कीजिए :
- (क) अन्तराल $[-2, 2]$ पर फलन $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए।
- (ख) उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका तीन सदिशों $3\hat{i} - 5\hat{k}$, $2\hat{i} + 7\hat{j}$ तथा $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1, 6 तथा 5 है।

(ग) सदिश $7\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$ का सदिश $2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$ पर
प्रक्षेप ज्ञात कीजिए।

2

(घ) दिया है कि घटनाएँ A तथा B ऐसी हैं कि $P(A) = \frac{1}{2}$,
 $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ तथा $P(B) = p$ तो p का मान ज्ञात
कीजिए अगर वे

(i) परस्पर अपवर्जी घटनाएँ हैं।

(ii) स्वतंत्र घटनाएँ हैं।

1

1

4. Attempt all the parts of the following :

(a) Verify Rolle's theorem for the function
 $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ on $[-2, 2]$.

2

(b) Scalar product of a vector with vectors
 $3\hat{i} - 5\hat{k}$, $2\hat{i} + 7\hat{j}$ and $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ are
respectively -1, 6 and 5. Find the vector.

2

(c) Find projection of the vector $7\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$ on
the vector $2\hat{i} + 6\hat{j} + 3\hat{k}$.

2

(d) Given the events A and B are such that $P(A) = \frac{1}{2}$,
 $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ and $P(B) = p$, find p if they are

5

(i) mutually exclusive events.

1

(ii) independent events.

1

5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :

(क) सिद्ध कीजिए कि :

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{\pi}{4}. \quad 5$$

(ख) बिना प्रसार के, सिद्ध कीजिए कि

$$\begin{vmatrix} b^2 c^2 & b c & b + c \\ c^2 a^2 & c a & c + a \\ a^2 b^2 & a b & a + b \end{vmatrix} = 0 \quad 5$$

(ग) $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos 2x \log \sin x \, dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

5

(घ) रेखाओं जिनके सदिश समीकरण

$$\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda (2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) \text{ तथा}$$

$$\vec{r} = (2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}) + \mu (4\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k}) \text{ के बीच
की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।}$$

5

(ङ) एक घन का आयतन $7 \text{ cm}^3/\text{sec}$ की दर से बढ़ रहा
है। उसका सम्पूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है
जबकि घन की एक भुजा 12 से.मी. है ?

5

(च) अगर $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$

सिद्ध कीजिए कि $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$

5

5. Attempt any five parts of the following :

(a) Prove that

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{5}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{\pi}{4}. \quad 5$$

(b) Without expanding, show that

$$\begin{vmatrix} b^2 c^2 & b c & b + c \\ c^2 a^2 & c a & c + a \\ a^2 b^2 & a b & a + b \end{vmatrix} = 0 \quad 5$$

(c) Evaluate $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos 2x \log \sin x \, dx \quad 5$

(d) Find shortest distance between the lines whose vector equations are

$$\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) \text{ and}$$

$$\vec{r} = (2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}) + \mu(4\hat{i} + 6\hat{j} + 8\hat{k}). \quad 5$$

(e) The volume of a cube is increasing at the rate of $7 \text{ cm}^3/\text{sec}$. How fast is the total surface area increasing when length of an edge is 12 cm ? 5

(f) If $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ prove that $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$ 5

6. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :

(क) सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रियक ऊँचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण $\tan^{-1}\sqrt{2}$ होता है। 5

(ख) $y = \sqrt{x}$ तथा $y = x$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5

(ग) बिन्दुओं A(2, 2, -1), B(3, 4, 2), C(7, 0, 6) से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। 5

(घ) निम्न अवरोधों के अन्तर्गत $Z = 50x + 15y$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए : 5

$$5x + y \leq 100,$$

$$x + y \leq 60,$$

$$x \geq 0,$$

$$y \geq 0$$

(ङ) प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र $y + \frac{2}{x-3} = 0$ को स्पर्श करती हैं। 5

(च) एक थैली में 4 सफेद तथा 6 लाल गेंद हैं, उस थैली से यादृच्छिक 4 गेंद निकाली जाती हैं। सफेद गेंद आने की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 5

6. Attempt any five parts of the following :

- (a) Show that semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is $\tan^{-1} \sqrt{2}$

5

- (b) Find the area of the region bounded by $y = \sqrt{x}$ and $y = x$.

5

- (c) Find the vector equation of the plane passing through the points A(2, 2, -1), B(3, 4, 2), C(7, 0, 6). Also find Cartesian equation of the plane.

5

- (d) Maximize $Z = 10x + 15y$
subject to the constraints :

$$5x + y \leq 100,$$

$$x + y \leq 60,$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

5

- (e) Find the equation of all the lines of gradient 2, which touches the curve $y + \frac{2}{x-3} = 0$

5

- (f) An urn contains 4 white and 6 red balls. Four balls are drawn at random from the urn. Find the probability distribution of the numbers of white balls.

5

7. निम्नलिखित में से एक खण्ड को हल कीजिए :

- (क) प्रारंभिक रूपान्तरण के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

8

- (ख) निम्नलिखित समीकरण निकाय

$$x + y + z = 6$$

$$x + 2z = 5$$

- $3x + y + z = 12$ को आव्यूह विधि से हल कीजिए।

8

7. Attempt any one part of the following :

- (a) Find inverse of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}, \text{ by using elementary operations.}$$

8

- (b) Solve the following system of equations by matrix method.

$$x + y + z = 6$$

$$x + 2z = 5$$

$$3x + y + z = 12$$

8

8. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

(क) $y e^y dx = (y^3 + 2x e^y) dy$, $y(0) = 1$ को हल
कीजिए।

8

(ख) अवकल समीकरण

$$(x - y) \frac{dy}{dx} = (x + 2y) \text{ का हल ज्ञात कीजिए।}$$

8

8. Attempt any **one** part of the following :

(a) Solve $y e^y dx = (y^3 + 2x e^y) dy$, $y(0) = 1$.

8

(b) Solve the differential equation

$$(x - y) \frac{dy}{dx} = (x + 2y),$$

8

9. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :

(क) सिद्ध कीजिए कि $\int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \log 2$

8

(ख) $\int_0^{\pi/2} \frac{x dx}{\sin x + \cos x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

8

9. Attempt any **one** part of the following :

(a) Prove that $\int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \log 2$

8

(b) Evaluate $\int_0^{\pi/2} \frac{x dx}{\sin x + \cos x}$

8